

and advised the foreign banks operating in the country to increase their advances to the priority sector categories of borrowers to a substantial extent. The banks have been advised that their priority sector advances should reach a level of 10% of their net outstandings, by the end of March, 1989, to be progressively increased to 15% by the end of March, 1992.

दिल्ली में स्थापकों का अभिग्रहण

831. श्री सोहन लाल बूसिया :

श्री दुर्गा प्रसाद जामुना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1988 के महीनों में दिल्ली में प्रति माह कितनी मात्रा में स्थापक जस्त लिये गये और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन स्थापकों का मूल्य कितना है ;

(ख) इन सम्बन्ध में कितने पुरुषों तथा कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) वे इस व्यापार में कब से लगे हुए थे और उनके पते क्या हैं ; और

(घ) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दायर किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अशोक पांडे) : (क) से (घ) दिल्ली में अगस्त, सितम्बर, और अक्टूबर, 1988 के दौरान पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों की माह-वार मात्रा तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग नीचे दी गई है :—

नशीले औषध-द्रव्य का नाम	मात्रा (कि.ग्रा. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
अगस्त 1988		
अफीम	0.150	2
मार्फीन	0.160	--
हेरोइन	2.611	13
हेराफ (बरस)	2.600	2

(1)	(2)	(3)
सितम्बर, 1988		
हर्शीश	118.290	10
हेरोइन	0.013	4
अक्टूबर, 1988		
हर्शीश	15.512	4
हेरोइन	14.701	3

(टिप्पणी:—आंकड़े अन्तिम हैं)

पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों का सही-सही मूल्य न तो स्वदेशी बाजारों में और न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ही आंका जा सकता है क्योंकि यह नशीले औषध-द्रव्य की शुद्धता उदगम और बिक्री के जोत स्थानीय मांग और आपूर्ति आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है।

यह कह पाना कठिन है कि ये व्यक्ति कब से इस व्यापार में लगे हुए थे। इनके पते तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

Loans advanced to M/s- Larsen and Toubro by the financial institutions

832. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the financial institutions which have advanced loans to M/s. Larsen and Toubro Limited recommended for the taking over of the company;

(b) if so, what is the total amount advanced to M/s. Larsen and Toubro Limited by the financial institutions since 1986;

(c) whether any further advances were made by the financial institutions during the years 1987 and 1988; and